

# व्यसाय योजना

## बुनाई

जय मा मुरारी स्वय सहायता समूह फागला



जैव विविधता प्रबंधन समिति  
जैव विवधता उप समिति  
पंचायत  
वन तकनीकी इकाई  
प्रभाग प्रबंधन इकाई

बोबर  
फागला  
बोबर  
वन परिक्षेत्र वन्य प्राणी सुंदरनगर  
वन मण्डलवन्य प्राणी कुल्लू



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के सुधार के लिए परियोजना & आजीविका (जेआईसीए सहायता)  
सामग्री की तालिका

| Sl. No. | विवरण     | Page/s |
|---------|-----------|--------|
| 1.      | पृष्ठभूमि | 3      |

|     |                                                     |   |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 2.  | SHG/CIG का विवरण                                    | 3 |
| 3.  | लाभार्थियों का विवरण:                               | 4 |
| 4.  | गाँव का भौगोलिक विवरण:                              | 4 |
| 5.  | मैनेजमेंट                                           | 4 |
| 6.  | ग्राहकों                                            | 5 |
| 7.  | केंद्र का लक्ष्य                                    | 5 |
| 8.  | इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण                     | 5 |
| 9.  | व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक चरण              | 5 |
| 10. | ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ मुख्य विशेषताएं | 6 |
| 11. | काटने और सिलाई व्यवसाय का विपणन विश्लेषण            | 6 |
| 12. | व्यापार लक्ष्य                                      | 6 |
| 13. | वित्तीय पूर्वानुमान/अनुमान                          | 6 |
| 14. | अर्थशास्त्र का विवरण:                               | 7 |
| 15. | अनुमान आओ:                                          | 8 |
| 16. | आय और व्यय का विश्लेषण (मासिक):                     | 8 |
| 17. | समूह में निधि प्रवाह:                               | 8 |
| 18. | धन और खरीद के स्रोत:                                | 9 |
| 19. | प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उत्थान प              | 9 |
| 20. | ऋण चुकौती अनुसूची                                   | 9 |
| 21. | निगरानी विधि                                        | 9 |
| 22. | टिप्पणियां                                          | 9 |

## 1. विवरण

स्वेटर और कार्डिगन बुनाई के साथ मोजे, मफलर, स्कार्फ, टोपी, दस्ताने आदि मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच एक आम घरेलू गतिविधि है। अधिकांश महिलाएं अपने आईजीए के साथ अच्छी तरह से परिचित हैं और वे इसे अन्य घरेलू काम करते समय अच्छी तरह से करते हैं। इस एसएचजी में महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही गतिविधि में हैं। अब सदस्यों ने इस गतिविधि को आईजीए के रूप में चुना है ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन कमा सकें और कठिन समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। विभिन्न आयु वर्ग की 8 महिलाओं का एक समूह जेआईसीए परियोजना के तहत एक एसएचजी बनाने के लिए एक साथ आया और एक व्यवसाय योजना तैयार करने का फैसला किया जो उन्हें सामूहिक तरीके से इस आईजीए को लेने और उनकी अतिरिक्त आय बढ़ाने में मदद कर सकता है।

## 2. पृष्ठभूमि

जय मां मुरारी एसएचजी सुंदरनगर द्वारा बुनाई केंद्र गांव फगला पीओ मलोह तहसील सुंदरनगर, जिला सुंदरनगर में स्थित होगा। मंडी एचपी। गांव में कुल घरों 55 फगला और Fagla जिसके लिए इस बुनाई केंद्र के लिए पूरा करेगा आसपास के छोटे से गांव है। यह केंद्र उत्कृष्ट सेवा प्रदान करेगा और ग्राहकों को इस बारे में मार्गदर्शन करेगा कि उन्हें वह उत्पाद प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा क्या है जो उनके लिए उच्चतम स्तर की संतुष्टि और आराम को चिह्नित करता है।

## 3. SHG/CIG का विवरण

|                                                  |    |                                       |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| स्वयं सहायता समूह /CIG का नाम                    | :: | जय मा मुरारी स्वयं सहायता समूह /बुनाई |
| जैव विविधता उप समिति प्रबन्धन                    | :: | फागला                                 |
| वन प्राणी परिक्षेत्र                             | :: | सुंदरनगर                              |
| वन मण्डल प्राणी                                  | :: | कुल्लू (WL)                           |
| गाँव                                             | :: | फागला                                 |
| वन खण्ड                                          | :: | सुंदरनगर                              |
| जिला                                             | :: | मंडी                                  |
| कुल संख्या स्वयं सहायता के सदस्यों की कुल संख्या | :: | 9 – महिला                             |
| गठन की तिथि                                      | :: | 27/06/2022                            |
| बैंक खाता नं.                                    | :: | 055301000024141                       |
| बैंक विवरण                                       | :: | पंजाब नेशनल ,मलोह (जिला मण्डी )       |

|                         |    |                  |
|-------------------------|----|------------------|
| एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत | :: | 50               |
| कुल बचत                 |    | 1000 (till date) |
| कुल अंतर-ऋण             |    | --               |
| कैश क्रेडिट लिमिट       |    | --               |
| चुकोती की स्थिति        |    | --               |

**4 लाभार्थियोंविवरण:**

| S.No | नाम          | पिता /पति का नाम | श्रेणी | फ़ोन नंबर   | पद     |
|------|--------------|------------------|--------|-------------|--------|
| 1    | कुशम लता     | लेख राज          | समान्य | 7807416324  | प्रधान |
| 2    | तारा देवी    | राम सरन          | समान्य | 8544761334  | सचिव   |
| 3    | गुम देवी     | बलदेव            | समान्य | 9816955095  | सदस्य  |
| 4    | रूपा देवी    | श्याम लाल        | समान्य | 9857718225  | सदस्य  |
| 5    | बिमला देवी   | लक्ष्मण          | समान्य | 9459186836  | सदस्य  |
| 6    | सीता देवी    | सजू राम          | समान्य | 8219548846  | सदस्य  |
| 7    | शिव देई      | मनी राम          | समान्य | 70181071141 | सदस्य  |
| 8    | हिमाहली देवी | प्रेमलाल         | समान्य | 8894563553  | सदस्य  |

**5. Geographical detailsoftheVillage:**

|     |                                                               |    |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| 3.1 | जिला मुख्यालय से दूरी                                         | :: | 36 KM                |
| 3.2 | मेन रोड से दूरी                                               | :: | 13 KM                |
| 3.3 | स्थानीय बाजार का नाम और दूरी                                  | :: | Mandi , 33 KM        |
| 3.4 | मुख्य बाजार का नाम और दूरी                                    | :: | 8 Km                 |
| 3.5 | मुख्य शहरों के नाम और दूरी                                    | :: | मंडी सुंदरनगर,33 KM, |
| 3.6 | उन स्थानों/स्थानों के नाम जहाँ उत्पाद बेचा / विपणन किया जाएगा | :: | मंडी, सुंदरनगर       |

## 5. प्रबंधन

बुनाई केंद्र जय मां मुरारी एसएचजी फगला में 08 महिला सदस्य हैं और उनके पास व्यक्तिगत बुनाई मशीनें होंगी और सामूहिक तरीके से अपनी योजना और काम को निष्पादित करने के लिए गांव में एक कमरा किराए पर लेंगे। केंद्र में वास्तविक काम शुरू होने से पहले सभी सदस्यों को कुछ पेशेवर प्रशिक्षकों के तहत बुनाई में प्रशिक्षण के लिए एक अल्पकालिक कैप्सूल पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा।

## 6. प्राथमिक कार्य

इस एसएचजी के सदस्यों के पास इस आईजीए के बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और समूह के भीतर सावधानीपूर्वक और विचारशील चर्चा के बाद अतिरिक्त आय के लिए इस गतिविधि को शुरू करने का निर्णय लिया। सदस्य इस गतिविधि को अलग-थलग कर रहे हैं लेकिन अब उन्होंने इस गतिविधि में थोड़े बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से उद्यम करने के लिए हाथ मिलाया है। सदस्यों के बीच श्रम के विभाजन की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई है ताकि प्रत्येक और आईजीए को मजबूत करने में योगदान दे और परिणामस्वरूप अतिरिक्त धन उनकी जेब में आ जाए

## 7. ग्राहकों

हमारे केंद्र के प्राथमिक ग्राहक ज्यादातर गांव फगला के आसपास के स्थानीय लोग होंगे, लेकिन बाद में इस व्यवसाय को पास के छोटे शहरों में खानपान करके बढ़ाया जा सकता है।

## 9. केंद्र का लक्ष्य

केंद्र का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से फगला गांव के निवासियों और आसपास के गांवों के अन्य सभी निवासियों को अद्वितीय आधुनिक और उच्च श्रेणी की बुनाई सेवा प्रदान करना है। यह केंद्र आने वाले वर्षों में अपने संचालन के क्षेत्र में गुणवत्ता के काम के साथ सबसे प्रसिद्ध बुनाई केंद्र बनना सुनिश्चित करेगा।

## 10 इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण

इस एसएचजी के सदस्यों के पूर्व अनुभव के कारण जो पहले से ही यहां-वहां एक ही काम कर रहे हैं, इस आईजीए का चयन किया गया है और इसलिए एसएचजी इस व्यवसाय को शुरू कर रहा है। यह विभिन्न सदस्यों के कौशल को संयोजित करने और अधिक आजीविका अर्जित करने के लिए उनकी गतिविधि को बढ़ाने का एक प्रयास है।

## 11. स्कोटाएनालिसिस

- शक्ति ☐ कुछ स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा कार्यकलाप पहले ही किए जा रहे हैं
- ☐ कच्चा माल आस-पास के बाजारों से आसानी से उपलब्ध है
- ☐ विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- ☐ उचित पैकिंग और परिवहन में आसान

☐ परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों के साथ सहयोग करेंगे

☐ उत्पादस्व-जीवनहैलंबा

कमजोरी ☐ तकनीकी जानकारी का अभाव

☐ तकनीकी जानकारी का अभाव मौक़ा

☐ मौक़ा ☐ खतरा/जोखिम

☐ प्रतिस्पर्धी बाजार

☐ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता का स्तर  
मशीनरी, उपकरण और अन्य उपकरण

यांत्रिक बुनाई के साथ पारंपरिक बुनाई हाथ से जाएगी ताकि एक मूल्य उत्पाद विपणन के लिए उपलब्ध कराया जा सके और इसे गुणवत्ता और मूल्य टैग दोनों में प्रतिस्पर्धी बना दिया जा सके। लक्षित क्षेत्र में मांग के आधार पर कुछ वस्तुओं का उत्पादन पारंपरिक तरीके से और अन्य यांत्रिक तरीके से किया जाएगा। निम्नलिखित मशीनरी और उपकरणों की खरीद की आवश्यकता है।

| A.           | CAPITALCOST         |        |             |          |
|--------------|---------------------|--------|-------------|----------|
| Sr.<br>No.   | मशीनरी का<br>विवरण। | मात्रा | प्रति यूनिट | कुल राशि |
| 1            | पंचकार्डबुनाई मशीन  | 07     | 24000       | 168,000  |
| 2            | बुनाई की मशीन (सरल) | -      | 6000        | 0        |
| 3            | बुनाईडिजाइन पुस्तक  | -      | 1500        | 0        |
| 4            | गोलामेकिंग मशीन     | 01     | 600         | 600      |
| 5            | काम करने की मेज     | -      | 1200        | 0        |
| 6            | प्लास्टिकचेयर       | -      | 475         | 0        |
| कुलपूँजीलागत |                     |        |             | 1,68,600 |

| B. आवर्ती लागत     |                                       |                  |       |            |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|
| Sr.<br>No.         | विवरण                                 | इकाई             | दर    | कुल धनराशि |
| 1.                 | रूमरेंट                               | प्रति माह        | 1500  | 1500       |
| 2.                 | पानी और बिजली                         | प्रति माह        | 1000  | 1000       |
| 3.                 | बुनाई यार्नविभिन्न रंग और गुणवत्ता का | प्रति माह<br>L/S | 84000 | 84000      |
| 4.                 | चिकनाई तेल और पिपेट                   | प्रति माह        | 1400  | 1400       |
| 5.                 | पहनें और फाड़ें                       | प्रति माह<br>L/S | 1400  | 1400       |
| TotalRecurringcost |                                       |                  |       | 89300      |

#### 12. Total production and sale amount in month

चूंकि यह एसएचजी में उनके नियमित घरेलू काम के अलावा एक अतिरिक्त गतिविधि है, इसलिए परिणाम प्रत्येक सदस्य के काम के घंटों के अनुपात में होगा। उत्पादन को रूढ़िवादी पक्ष पर रखना शुरू में हमेशा बेहतर होता है जिसे हमेशा समय और कार्य अनुभव के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि शुरू करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक 3 सदस्य एक दिन में एक स्वेटर सिलाई करेंगे, 3 सदस्य एक दिन में मोजे बनाएं और 2 सदस्य सभी प्रकार से बेबी सेट बनाएं। साधारण स्वेटर के लिए आज की तारीख में शुल्क लगभग 700 प्रति स्वेटर है। औसतन समूह के 3 सदस्य एक महीने में 90 स्वेटर सिल सकते हैं, इसलिए समूह का कुल उत्पादन अनुमानित  $90 * 800 =$  केवल 72000 / - रुपये है। आज की तारीख में ऊनी मोजे के लिए शुल्क लगभग 200 प्रति मोजे है। औसतन समूह के 3 सदस्य एक महीने में 180 ऊनी मोजे बना सकते हैं, इसलिए समूह का कुल उत्पादन अनुमानित  $180 * 200 =$  केवल 36000/- रुपये है। बेबी सेट के लिए आज के अनुसार शुल्क है ...

| विवरण                             | कुल राशि (Rs.) | परियोजना योगदान<br>(75%) | स्वयं सहायता योगदान<br>(25%) |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| कुल पूंजी लागत                    | 168,600        | 1,26,450                 | 42,150                       |
| आवर्ती लागत                       |                |                          |                              |
| 10% पर मूल्यहास<br>पूंजी लागत/माह | 1405           | -                        | 1405                         |
| प्रति अन्य व्यय<br>महीना          | 89,300         | -nil-                    | 89,300                       |
| कुल                               | 2,59,305       |                          | 1,32,855                     |

हालांकि, 1,26,450 रुपये की राशि परियोजना का समर्थन है, इसलिए गणना के उद्देश्य से इस राशि को व्यय कॉलम से सुरक्षित रूप से काटा जा सकता है और शुद्ध आय को फिर से डाला जा सकता है। एसएचजी के अधिकांश सदस्य सामूहिक रूप से काम करेंगे, इसलिए उनकी मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा गया है। महीने के अंत में शुद्ध आय को निम्नानुसार फिर से डाला जाता है



| पूँजीगत लागत                                 |                        |                     |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| विवरण                                        | कुल धनराशि             | स्वयं सहायता योगदान |
| पूँजीगत लागत                                 | 168,600                | 42150               |
| आवर्ती व्यय                                  |                        |                     |
| i) 10 प्रति माह पूँजीगत लागत पर % मूल्यह्रास | 1,405                  | 1,405               |
| i) सामग्री लागत आदि पर अन्य व्यय।            | 89,300                 | 89,300              |
| कुल                                          | 90,705                 | 90,705              |
| कुल लागत                                     | 21,075+90,705=1,11,780 |                     |
| कुल बिक्री 1st महीने में                     | 1,32,000               |                     |
| Net profit                                   | 20,220                 |                     |

#### 14 . लाभ का बंटवारा

एसएचजी के सदस्यों ने सहमति से सहमति व्यक्त की है कि पहले महीने में प्रत्येक सदस्य को आय के रूप में 2000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और शेष 4220 रुपये का लाभ भविष्य की आकस्मिकता, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उनके बैंक खाते में आपातकालीन रिजर्व के रूप में रखा जाएगा

#### 15.. समूह में निधि प्रवाह:

| Sr.No. | विवरण           | कुल राशि (Rs) | परियोजना का योगदान | एसएचजी योगदान |
|--------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1      | कुल पूँजी लागत  | 168,600       | 126450             | 42150         |
| 2      | कुल आवर्ती कीमत | 89,300        | 0                  | 89,300        |
| 3      | प्रशिक्षण       | 45,000        | 45,000             | 0             |
|        | कुल परिव्यय     | 3,02,900      | 17,1450            | 13,1450       |

Note-

पूँजीगत लागत-कुल पूँजीगत लागत का 75% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा  
आवर्ती लागत- संपूर्ण लागत एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन की जाएगी।

16 **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन की जाने वाली कुल लागत धन और खरीद के स्रोत:**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परियोजना का समर्थन; | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 मशीनों की खरीद के लिए पूंजी लागत का % उपयोग किया जाएगा.</li> <li>एसएचजी बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक जमा किए जाएंगे परिक्रामी निधि.</li> <li><input type="checkbox"/> प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत.</li> </ul> | <p>मशीनों की खरीद संबंधित द्वारा की जाएगी डीएमयू /</p> <p>सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करना.</p> |
| एसएचजी योगदान       | <ul style="list-style-type: none"> <li>एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली पूंजी लागत का 25%.</li> <li>स्वयं सहायता द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत</li> </ul>                                                                                                         |                                                                                                  |

17 **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन**

- a. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी। निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

टीमवर्क

गुणवत्ता नियंत्रण

पैकेजिंग और विपणन

वित्तीय प्रबंधन

**18 ऋण चुकौती अनुसूची**

यदि बैंक से ऋण लिया जाता है तो यह नकद के रूप में होगा, कोई चुकौती अनुसूची नहीं है, हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से रूट की जानी चाहिए.

- b. सीसीएल में, एसएचजी का बकाया मूल ऋण होना चाहिए be
- c. वर्ष में एक बार बैंकों को पूरी तरह से भुगतान किया जाता है। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए.
- d. सावधि ऋण में, पुनर्भुगतान बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए.

## 19. निगरानी विधि-

- e. वीएफडीएस/बीएमसी की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी ताकि अनुमान के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित किया जा सके.
- f. एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि अनुमान के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

Resolution-CUM-Group-consensus Form

It is decided in the General house meeting of the Group SHG Tajma murari held on 3-12-2022 at Fagla that our group will undertake the KM/II/AG as Livelihood Income Generation Activity under the project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted).

प्रधान Kusham Lal सायब  
Signature of Group President  
गांव फागला, मलोह, सुन्दरनगर (डि०प्र०)

Tara Devi सायब  
Signature of Group Secretary  
गांव फागला, मलोह, सुन्दरनगर (डि०प्र०)

Signature of President BMC

**President** **Cashier**  
**The Fagla Bio-Diversity**  
**Mgmt Sub Committee**  
**P.O. Maloh, Sundernagar**

Signature of FFI-CUM-RFO

**Range For**  
**Wild Life**  
**Sundarnagar**


Approved

Chand  
Treasurer  
B.O. Bober

ACF(WL) Kullu

[Signature]  
Divisional Management Unit Officer-CUM  
Divisional Forest Officer, Wild Life Division  
Kullu, District Kullu.

## 20.समूहों के सदस्यों की तस्वीरें

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |   |
| कुशम लता (सदस्य)                                                                    | हिमाचली (सदस्य)                                                                     | रूपा देवी (सदस्य)                                                                   |
|   |   |  |
| तारा देवी<br>(सदस्य)                                                                | सीता देवी (सदस्य)                                                                   | बिमला देवी (सदस्य)                                                                  |
|  |  |                                                                                     |
| शिव देई (सदस्य)                                                                     | गुमा देवी (सदस्य)                                                                   |                                                                                     |